



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 29.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### थाना मैलानी पुलिस द्वारा 02 नफर जिलाबदर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.09.2021 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा धारा 3 गुण्डा एक्ट के अंतर्गत 06 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश का उल्लंघन करने के संबंध में 02 अभियुक्तों 1.सोहराब खां व 2.मंगल खां को ग्राम अंगदपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.सोहराब खां पुत्र मेडई नि0 ग्राम अंगदपुर थाना मैलानी जनपद खीरी
- 2.मंगल खां पुत्र अलीजान नि0 ग्राम अंगदपुर थाना मैलानी जनपद खीरी

#### पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 प्रवीण कुमार, थाना मैलानी
- 2.हे0का राकेश कुमार
- 3.का0 इन्देश कुमार
- 4.का0 जागिन्द्र सिंह

## थाना मैलानी पुलिस द्वारा अवैध बन्दूक सहित अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र जफरुद्दीन निवासी ग्राम नानकपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध बन्दूक 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 399/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 - 399/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी जनपद खीरी।

### नाम पता अभियुक्त:-

अभियुक्त रिजवान पुत्र जफरुद्दीन निवासी ग्राम नानकपुर थाना मैलानी, खीरी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार चौकी प्रभारी संसारपुर
- 2.हे0कां0 राकेश कुमार यादव
- 3.कां0 इन्द्रेश कुमार
- 4.कां0 जागिन्द्र सिंह

## **थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, 01 नफर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, मौके से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व आपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सोनू पुत्र बड़क्के निवासी ग्राम सेमराघाट थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कस्बा मैगलगंज स्थित बैंक आफ इंडिया के सामने खड़ी मोटरसाइकिल सीटी 100 को चोरी कर भाग रहा था जिसे स्थानीय जनता के सहयोग से पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

सोनू पुत्र बड़क्के निवासी ग्राम सेमराघाट थाना मैगलगंज जनपद खीरी

### **बरामदगी का विवरण:-**

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल

## **थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मीर खां पुत्र रहमतुल्ला को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त मीर खां पुत्र रहमतुल्ला नि0 अंजनपुर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 297/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा सट्टा खेलते हुए अभियुक्त वहीद पुत्र एजाज हुसैन को गिरफ्तार किया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा सट्टा खेलते हुए अभियुक्त वहीद पुत्र एजाज हुसैन मो0 नई बस्ती कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद सट्टा पर्ची, 01 अदद पेन-डायरी व कुल 1,620 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 526/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 158 लीटर अवैध शराब सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **158 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 11 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	50 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना भीरा	25 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैगलगंज	23 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना हैदराबाद	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मोहम्मदी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना फरधान	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	158 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार